



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2011/पौष 17, 1932

No. 26]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2011/PAUSA 17, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2011

का.आ. 27(अ).—स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खंड (ड) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रोफेसर बी. पी. चटर्जी को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामांकित करती है।

[फा. सं. वी-17011/2/2008-एमई-II]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2011

S.O. 27(E).—In pursuance of clause (e) of Section 5 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government thereby nominate Prof. B.P. Chatterjee to be the member of institute Body of the Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh.

[F. No. V-17011/2/2008-ME-II]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.